
VIKAS WSP LIMITED

B-86/87, Udyog Vihar, RIICO, Industrial Area

Sriganganagar - 335 002 / INDIA

CIN : L24139HR1988PLC030300

E-mail : vikasvegan@yahoo.com , website : www.vikaswsp Ltd.in

Telephone : 91(154)2494512/2494552 Fax : 91(154)2494361/2475376



June 26, 2024

**To
The General Manager,
Bombay Stock Exchange
Corporate Relation Department,
Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street, Mumbai – 400001**

Ref: Vikas WSP Limited

Scrip Code:-519307

Subject: -Published Notice for Approval of Audited Standalone Financial Results for the fourth Quarter (Q-4) and year to date ended 31st March, 2024 in Two Newspaper (Business Line and Pioneer)

Dear Sir/Madam,

This is to inform you that Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Notice of the meeting of the audit committee, Board Meeting and Resolution Professional of the Company is scheduled to be held on Tuesday, July 02, 2024 at **B-86/87, RIICO, Udyog Vihar, Industrial Area, Sri Ganga nagar-335002** at 11.00 A.M. inter alia, to consider, approve, take on records the Audited Standalone Financial Results for the fourth Quarter(Q-4) and year to date ended 31st March, 2024 published in following two newspapers.

(1) Business Line (English all Edition)- 26.06.2024

(2) Pioneer (Hindi all Edition)-26.06.2024

We hereby enclose clipping of each advertisement published in aforesaid newspapers for your kind information and record.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For VIKAS WSP LIMITED

Gunjan Kumar Karn

Company Secretary cum compliance officer

M.No.-A38298

VIKAS WSP LIMITED

B-86/87, Udyog Vihar, RIICO, Industrial Area

Sriganganagar - 335 002 / INDIA

CIN : L24139HR1988PLC030300

E-mail : vikasvegan@yahoo.com , website : www.vikaswsp Ltd.in

Telephone : 91 (154) 2494512/2494552 Fax : 91 (154) 2494361/2475376



(Vikas WSP Limited is under corporate insolvency resolution process pursuant to the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. With effect from February 02, 2022, its affairs, business and assets are being managed by, and the powers of the board of directors are vested in, the Interim Resolution Professional, Mr. Darshan Singh Anand (IP Registration No. IBBI/IPA-002/IP-N00326/2017-2018/10931, appointed by the National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench by order dated 02nd February, 2022 under the provisions of the code, which was published on the website of the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench on 02nd February, 2022 and continued as Resolution Professional by the 02nd committee of creditors(CoC) in its meeting held on 17th March, 2022 under the provisions of the Code.)

Encl: As above

QUICKLY.

Coforge's majority stake buy in Cigniti gets CCI nod



New Delhi: Competition Commission of India (CCI) has approved combination proposal involving acquisition of majority shareholding of Cigniti Technologies by Coforge Limited (Coforge). In May this year, the Board of Directors of Coforge approved the acquisition of 54 per cent equity stake in Cigniti Technologies at a per share price of ₹ 1,415. Coforge had also announced that it expects the acquisition process to be completed July-September 2024 quarter. **OUR BUREAU**

CoinDCX launches in-app Web3 mode

Bengaluru: Crypto exchange platform CoinDCX has launched Web3 mode in its app. The company said this would streamline user experience; its 1.5 crore users will have direct access to over 50,000 DeFi tokens. The Web3 mode will allow users to explore and invest in tokens that are unavailable on centralised exchanges, it said. **OUR BUREAU**

Fashion manufacturer ZYOD raises \$18 million



Bengaluru: ZYOD, a tech-enabled fashion manufacturing platform offering solutions from design to delivery, has raised \$18 million in a Series A round. The investment round was led by RTP Global, with participation from existing investors Lightspeed and Alteria Capital and new investors Stride Ventures, Stride One, and Trifecta Capital. ZYOD said it plans to grow its operations across 40-plus countries through technological advancements and talent acquisition. **OUR BUREAU**

Govt seeks industry inputs for trade pact with Malaysia

STOCKTAKING. Review based on feedback will help increase exports, bridge trade deficit

Amiti Sen
New Delhi

Saddled with a high trade deficit more than a decade after implementing a free trade agreement with Malaysia, India is set to begin a review process of the pact in a joint commission meeting to be held soon with its trade partner to expand and diversify the trade basket and make it more balanced, sources here said.

"The Commerce Department has sought inputs from various industry bodies and export promotion councils on the tariff and non-tariff barriers they face in Malaysia, the regulatory issues that are acting as hindrances and the measures that could help trade facilitation. These would be part of India's agenda in the joint commission meeting



YAWNING GAP. In 2010-2011, when the India-Malaysia CECA was signed, India's trade deficit with Malaysia was at \$2.65 billion; it widened to \$5.49 billion in 2023-24

for reviewing the India-Malaysia free trade pact. The idea is to increase exports and bridge the trade deficit," a source tracking the matter told *businessline*.

The free trade pact or CECA (Comprehensive Economic Cooperation Agreement) between Malaysia and India was implemented in July 2011 covering trade in goods, ser-

vices, investments and economic cooperation. In the area of goods in the CECA, both countries offered tariff liberalisation beyond the India-ASEAN FTA commitments on items of mutual interest for both.

TRADE DEFICIT UP

However, like in the case of the India-ASEAN FTA, India's trade deficit increased

with Malaysia after the implementation of the CECA. In 2010-2011, when the India-Malaysia CECA was signed, India's trade deficit with Malaysia was at \$2.65 billion with its exports valued at \$3.87 billion and imports at \$6.52 billion. The trade deficit widened to \$5.49 billion in 2023-24, with India's exports to Malaysia at \$7.26 billion and imports at \$12.75 billion.

The government has asked various sectors to list out products where tariffs in Malaysia are still high and could lead to greater market access if lowered.

"Information has also been sought on any non tariff barriers being faced by Indian exporters, for instance those related to sanitary & phytosanitary standards and technical barriers to trade," the source said.

IRDAI asks insurance firms to open more physical branches

G Naga Sridhar
Hyderabad

The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has asked insurers to open more bricks-and-mortar branches alongside stepping up digital offerings.

"Physical presence through brick-and-mortar offices leads a long way in gaining customer confidence particularly in remote locations of the country. Adoption of technology infrastructure to reach out to customers enhances ease, a physical approach which can come in handy to reach the last mile," the regulator said in a master circular on operations.

To instil confidence in customers through visibility, the opening or closing of business units must be done judiciously, safeguarding the interests of policyholders, the regulator said.

Places of business should



As per IRDAI data, there were 11,256 life insurance offices as on March 31, 2023, which is an increase of 196 from the previous year. Around 59 per cent of life insurance offices are in tier-1 centres with population of one lakh and above.

About 0.76 per cent are in tier-6 centres with population less than 5,000.

EXISTING OFFICES

The public sector insurer had offices in 688 of the 750 districts (92 per cent) in the country, whereas private sector insurers had offices in 604 districts (81 per cent).

Public and private insurers together covered 92 per cent of districts.

General and health insurers were operating from 9,917 offices against 10,775 offices as on March 31, 2022.

Overall, there is a decrease of 858 non-life insurance offices as compared with the previous year.

be opened within a year from the date of approval, after which it would lapse.

LIAISON OFFICE

To open a representative or liaison office outside India, the board of the insurer should approve all the related operational matters.

"The insurer should have appropriate arrangements to ensure that the policyholders' liabilities that arise out of foreign operations are adequately ring-fenced in order to protect interests of the policyholders residing in India," it said.

Rupee likely to maintain the range

Akhil Nallamuthu
bl research bureau

The rupee is up by 11 paise so far this week against the dollar as it ended at 83.43 on Tuesday. Therefore, the local currency has managed to recoup most of its losses it made in the second half of last week.

WEEKLY RUPEE VIEW.

The decline in the dollar early this week supported the Indian unit. A notable positive development for rupee has been the current account deficit (CAD) number. The latest data shows that CAD, at \$23.3 billion, has narrowed to 0.7 per cent of GDP in FY24 compared with \$67 billion in the previous fiscal.

Another factor supporting the rupee is the capital inflows. According to National Securities Depository Ltd data, the net foreign portfolio investors flows over the past week is \$2.9 billion. The net in-



flows in June so far stands at \$3.5 billion. Thus, rupee remained flat despite the dollar index gaining 1.5 per cent over the past three weeks. As per the chart, the rupee manages to keep the range of 83-83.60 valid.

CHART

The rupee, by closing at 83.43 on Tuesday, continues to trade within the 83-83.60 range. The broader price band has been 82.80-83.70. Therefore, it can establish a trend only when it moves out of this wider range. If the domestic currency surpasses the resistance at 82.80, it can appreciate to 82.50 and then to 82. On the other hand, a decline below 83.70 can open the door for a fall beyond 84,

potentially to 84.20-84.30 range.

The dollar index (DXY) can play a major role in deciding the path of rupee. DXY, currently trading at 105.50, has been on the rise over the last three weeks. Yet, it faces a resistance at 106.50. But a break-out of this can lead to a sharp rally, which can negatively impact the rupee. On the other hand, if DXY falls, it has a support at 104. But a breach of this can result in a deeper fall, probably to 102.70 or even to 101. In this scenario, rupee can be expected to appreciate to 82 or beyond.

OUTLOOK

There are fundamental factors that are in favour of the rupee now. The Fed keeping the rates higher for longer is dollar positive. Overall, the forces on both sides can largely be expected to balance out, which means, rupee does not have the conditions yet to get out of the range within which it has been trading for quite some time.

External debt up 6% to \$663.8 billion in FY24

Our Bureau
Mumbai

India's external debt increased by about 6 per cent year-on-year (or by \$39.7 billion) to \$663.8 billion as at March-end 2024 against \$624.1 billion as at March-end 2023.

However, as a ratio to GDP, it declined to 18.7 per cent at end-March 2024 from 19 per cent at end-March 2023.

The country's external debt comprises loans, currency and deposits, trade credit and advances and debt securities.

"Valuation effect due to the appreciation of the US dollar vis-à-vis the Indian rupee and other major currencies such as yen, the euro and SDR (special drawing rights) amounted to \$8.7 billion.

"Excluding the valuation effect, external debt would have increased by \$48.4 billion instead of \$39.7 bil-



US dollar-denominated debt remained the largest component of India's external debt, with a share of 53.8 per cent

lion at end-March 2024 over end-March 2023," per a RBI statement.

Debt service (that is principal repayments and interest payments) increased to 6.7 per cent of current receipts at end-March 2024 from 5.3 per cent at end-March 2023, reflecting higher debt service, it added.

At end-March 2024, long-term debt (with original maturity of above one year) increased by about 8 per cent y-o-y (or

by \$45.6 billion) to \$541.2 billion over end-March 2023 level.

COMPONENTS

Short-term debt on residual maturity basis (that is debt obligations that include long-term debt by original maturity falling due over the next twelve months and short-term debt by original maturity) constituted 42.9 per cent of total external debt at end-March 2024 (44.0 per cent at end-March 2023).

Short-term debt stood at 44.1 per cent of foreign exchange reserves (47.4 per cent at end-March 2023).

US dollar-denominated debt remained the largest component of India's external debt, with a share of 53.8 per cent at end-March 2024 (54.6 per cent as at March-end 2023).

This was followed by debt denominated in the Indian rupee (31.5 per cent vs 29.8 per cent as at March-end 2023), yen (5.8 per cent vs 5.7 per cent), SDR (5.4 per cent vs 6.1 per cent) and euro (2.8 per cent vs 3.2 per cent).

Loans remained the largest component of external debt, with a share of 33.4 per cent (32.5 per cent as at March-end 2023), followed by currency and deposits (23.3 per cent vs 22.6 per cent as at March-end 2023), trade credit and advances (17.9 per cent vs 19.9 per cent) and debt securities (17.3 per cent vs 16.7 per cent).

GDP growth to moderate to 7.1% in CY24: DBS Bank

KR Srivats
New Delhi

Singapore-headquartered DBS Group expects India's GDP growth to moderate, but stay resilient at 7.4 per cent in April-June 2024. For the entire calendar year 2024, DBS Group has now pegged the GDP growth estimate at 7.1 per cent. In January-March

2024, GDP growth had touched 7.8 per cent, led by non-farm output and investment growth. The modest slowdown in GDP growth in April-June 2024 is mostly led by deterioration in industrial production, credit, freight traffic and government capital expenditure, according to DBS Group's Nowcast. Meanwhile, farm tractor, commercial vehicle sales and external

trade in goods and services likely improved during the April-June quarter. "Based on a firm 1Q (Jan-Mar) and 2Q24 (April-June) reading in calendar year 2024, we expect full year growth at 7.1 per cent in CY24", Radhika Rao, Senior Economist, DBS Group Research said.

DBS Group's growth forecast of 7.4 per cent for April-June 2024 quarter is higher

than the Reserve Bank of India's (RBI) GDP growth projection of 7.3 per cent for this quarter.

Meanwhile, Joanne Goh, Senior Investment Strategist, DBS Bank, said that the incumbent NDA coalition is expected to follow through with policies that were kick-started in the previous term, including expanding the manufacturing footprint and capex push.

RBI appoints additional director on Bandhan Bank's board

Mithun Dasgupta
Kolkata

The Reserve Bank of India has appointed a director on the board of private sector lender Bandhan Bank, which will soon see a top management transition. The Kolkata-based lender's MD and CEO Chandra Shekhar Ghosh will retire on July 9, after spending nearly a decade at the helm.

In a stock exchange filing, Bandhan Bank said the Reserve Bank of India has appointed Arun Kumar Singh, a retired chief general manager at the central bank, as an Additional Director on its board for a period of one year from June 24, 2024 to June 23, 2025. Singh, aged 60 years, has working experience of almost 36 years in RBI. According to sources familiar with the development, the RBI has appointed the additional director on the bank's board to assist a "smooth" management transition as its MD and CEO's term is coming to an end shortly and the successor selection process is still on. On the succession plan, Ghosh, during an earnings call with analysts and investors, had said, "A search committee has been formed and it has appointed headhunters."

KERALA CRICKET ASSOCIATION
Invitation for Expression of Interest Franchise Team Rights
T20 Premier League
Expression of Interest (EOI) is invited from reputed companies/firms for acquiring team franchise rights in the T20 Premier League, organised by Kerala Cricket Association. The EOI documents along with application forms will be available from 26th June 2024, 5 pm onwards from the Office of Hon. Secretary, Kerala Cricket Association, Thiruvananthapuram / through email on submission of bid fee.

VIKAS WSP LIMITED
CIN: L24139HR1988PLC030300
Registered Office: Railway Road, Sivani, Haryana - 127046 India
Corporate Office: B-86/87, Udyog Vihar, RIICO, Industrial Area, Sri Ganganagar, Rajasthan
Website: www.vikaswsp.com
E-mail ID: cs@vikaswsp.com
1984@gmail.com
Tel: 91(154) 249451/2494552;
Fax: 31(154) 2494361/2475376

Notice is hereby given that Pursuant to Regulation 29, 33 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") that a meeting of the Board Meeting, audit committee and Resolution Professional of the Company is scheduled to be held on Tuesday, July 02, 2024 at B-86/87, RIICO, Udyog Vihar, Industrial Area, Sri Ganganagar-335002 at 11.00 A.M. inter alia, to consider, approve, take on records the Audited Standalone Financial Results for the fourth Quarter(Q-4) and year to date ended 31st March, 2024

By order of the Resolution Professional For Vikas WSP Limited (A company under corporate Insolvency Resolution process)
Sd/-
Gurajin Kumar Karn
Company Secretary
Issued with approval of Mr. Darshan Singh Anand
Resolution Professional
IBBI Reg. No.: IBBI/IPA-002/IP-N00326/2017-18/10931
Date: 26.06.2024
Place: Sri Ganganagar

TATA POWER
(Corporate Contracts Department)
Sahar Receiving Station, Near Hotel Leela, Andheri (E), Mumbai 400 059, Maharashtra, India
(Board Line: 022-67173188) CIN: L28920MH1919PLC000567

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST
The Tata Power Company Limited hereby invites Expression of Interest from eligible parties for "Outline Agreement for Three Years for Tree Trimming Works for Transmission & Distribution Division, Trombay Plant and Trombay Colony at Mumbai. (Tender Ref. No.: CC25PMR012)". For details of pre-qualification requirements, purchasing of tender document, bid security, etc., please visit Tender section of our website (URL: <https://www.tatapower.com/tender/tenderlist.aspx>). Eligible parties willing to participate may submit their expression of interest along with the tender fee on or before 5th July 2024.

COCHIN INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED
CIAL/CIVIL/613-B
TENDER NOTICE 26/06/2024
Item rate E-tenders are invited from reputed agencies for the work mentioned below at Cochin International Airport, Nedumbassery.

Name of Work	Estimated Amount (Rs.)	EMD	Period of Completion
Construction of Convention Hall, Cottages, Sports Complex and External Development Works - SH: Civil and Interior Works.	27.43 Crores	Rs.27 Lakhs (Rs.20 lakhs through online payment and balance Rs.7 lakhs as Bank guarantee)	15 months

For more details visit our website : www.cial.aero
Sd/-
Managing Director

TATA POWER
The Tata Power Company Limited (Mundra Thermal Power Station - UMPP)
Tunda Vandi Road, Tunda Village, Mundra, Kutch, Gujarat.
Reg. Office: Bombay House, 24 Homi Modi Street, Mumbai - 400 011

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST
The Tata Power Company Limited hereby invites Expression of Interest (EOI) from eligible bidders for the following requirement for 4150 MW UMPP Mundra Thermal Power Station:

- Supply of Butterfly valve (Size-2000 NB) for sea water application (Ref.: MTPS25AD757)
- Supply of Cold end Basket of Gas Air Preheater (GAH) (Ref.: MTPS25AD758)
- Supply of Horizontal Centrifugal Pull-out pump for sea water application (MOC-ASTM A995 Grade 5A AISI 2507) (Ref.: MTPS25AD759)
- Supply of Corrugated and plain Corten-A Steel sheet for Boiler Penthouse (Ref.: MTPS25-1500015887)
- Refractory Services for Bottom Ash Hopper in Ash handling plant (Ref.: MTPS25-2000018125)
- Supply of Grinding Rolls and Bull Ring segments for Coal Pulverisers, Model - XHP1103 (Ref.: 1000064575)

For prequalification requirements, tender fee, bid security etc., please visit Tender section of our website (URL: <https://www.tatapower.com/tender/tenderlist.aspx>) and refer detailed Tender Notice for subject tender. Eligible bidders willing to participate in this tender may submit their Expression of Interest along with the Tender Fee latest by 12/07/2024.

Invesco Mutual Fund

Invesco Asset Management (India) Pvt. Ltd.
(CIN: U67190MH2005PTC153471), 2101-A, 21st Floor, A Wing, Marathon Futurex, N. M. Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013
Telephone: +91 22 6731 0000 Fax: +91 22 2301 9422, Email: mfservices@invesco.com
www.invescomutualfund.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that Invesco Trustee Pvt. Ltd., (the Trustee to Invesco Mutual Fund) has approved the declaration of Income Distribution cum Capital Withdrawal ('IDCW') in the following scheme, the particulars of which are as under:

Name of the Scheme	Plan(s) / Option(s)	Amount of IDCW* (Rs. per unit)	NAV as on June 24, 2024 (Rs. per unit)	Record Date*
Invesco India Balanced Advantage Fund, an open ended dynamic asset allocation fund	IDCW Option	0.15	20.91	June 28, 2024
	Direct Plan - IDCW Option		24.63	

*Distribution of the above IDCW is subject to the availability of distributable surplus and may be lower to the extent of distributable surplus available on the record date. IDCW payable to the unit holder(s) will be lower to the extent of tax deducted at source, at applicable rates.

#or immediately following Business Day if that day is not a Business Day.

Face Value per unit is Rs. 10/-.

Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the IDCW Options of the scheme would fall to the extent of payout and statutory levy, if any.

Unit holders of the aforesaid scheme, whose names appear in the records of the Registrar, KFin Technologies Limited, as at the close of business hours on **Friday, June 28, 2024** or immediately following Business Day if that day is not a Business Day (including valid purchase/switch-in application received till 3.00 p.m. on the record date, subject to the entire amount of subscription/ purchase as per the application / switch-in request is available for utilization by the scheme before the cut-off time on the record date) will be entitled to receive the IDCW.

Unit holders holding units in dematerialized (electronic) form whose names appear in the statement of beneficial owners maintained by the Depositories under the aforesaid scheme as at the close of business hours on **Friday, June 28, 2024** will be entitled to receive the IDCW.

With regard to Unit holders under IDCW options of the aforesaid scheme, who have opted for IDCW Reinvestment facility, the IDCW due will be reinvested by allotting units for the IDCW amount (net of applicable taxes and stamp duty) (on the next Business Day after the Record Date) at a price based on the prevailing ex-IDCW NAV per unit on the record date.

For Invesco Asset Management (India) Pvt. Ltd. (Investment Manager for Invesco Mutual Fund)

**Sd/-
Saurabh Navavati
Chief Executive Officer**

Date: June 25, 2024

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

QUICKLY.

Coforge's majority stake buy in Cigniti gets CCI nod



New Delhi: Competition Commission of India (CCI) has approved combination proposal involving acquisition of majority shareholding of Cigniti Technologies by Coforge Limited (Coforge). In May this year, the Board of Directors of Coforge approved the acquisition of 54 per cent equity stake in Cigniti Technologies at a per share price of ₹ 1,415. Coforge had also announced that it expects the acquisition process to be completed July-September 2024 quarter. **OUR BUREAU**

CoinDCX launches in-app Web3 mode

Bengaluru: Crypto exchange platform CoinDCX has launched Web3 mode in its app. The company said this would streamline user experience; its 1.5 crore users will have direct access to over 50,000 DeFi tokens. The Web3 mode will allow users to explore and invest in tokens that are unavailable on centralised exchanges, it said. **OUR BUREAU**

Fashion manufacturer ZYOD raises \$18 million



Bengaluru: ZYOD, a tech-enabled fashion manufacturing platform offering solutions from design to delivery, has raised \$18 million in a Series A round. The investment round was led by RTP Global, with participation from existing investors Lightspeed and Alteria Capital and new investors Stride Ventures, Stride One, and Trifecta Capital. ZYOD said it plans to grow its operations across 40-plus countries through technological advancements and talent acquisition. **OUR BUREAU**

Govt seeks industry inputs for trade pact with Malaysia

STOCKTAKING. Review based on feedback will help increase exports, bridge trade deficit

Amiti Sen
New Delhi

Saddled with a high trade deficit more than a decade after implementing a free trade agreement with Malaysia, India is set to begin a review process of the pact in a joint commission meeting to be held soon with its trade partner to expand and diversify the trade basket and make it more balanced, sources here said.

"The Commerce Department has sought inputs from various industry bodies and export promotion councils on the tariff and non-tariff barriers they face in Malaysia, the regulatory issues that are acting as hindrances and the measures that could help trade facilitation. These would be part of India's agenda in the joint commission meeting



YAWNING GAP. In 2010-2011, when the India-Malaysia CECA was signed, India's trade deficit with Malaysia was at \$2.65 billion; it widened to \$5.49 billion in 2023-24

for reviewing the India-Malaysia free trade pact. The idea is to increase exports and bridge the trade deficit," a source tracking the matter told *businessline*.

The free trade pact or CECA (Comprehensive Economic Cooperation Agreement) between Malaysia and India was implemented in July 2011 covering trade in goods, ser-

vices, investments and economic cooperation. In the area of goods in the CECA, both countries offered tariff liberalisation beyond the India-ASEAN FTA commitments on items of mutual interest for both.

TRADE DEFICIT UP

However, like in the case of the India-ASEAN FTA, India's trade deficit increased

with Malaysia after the implementation of the CECA. In 2010-2011, when the India-Malaysia CECA was signed, India's trade deficit with Malaysia was at \$2.65 billion with its exports valued at \$3.87 billion and imports at \$6.52 billion. The trade deficit widened to \$5.49 billion in 2023-24, with India's exports to Malaysia at \$7.26 billion and imports at \$12.75 billion.

The government has asked various sectors to list out products where tariffs in Malaysia are still high and could lead to greater market access if lowered.

"Information has also been sought on any non tariff barriers being faced by Indian exporters, for instance those related to sanitary & phytosanitary standards and technical barriers to trade," the source said.

IRDAI asks insurance firms to open more physical branches

G Naga Sridhar
Hyderabad

The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has asked insurers to open more bricks-and-mortar branches alongside stepping up digital offerings.

"Physical presence through brick-and-mortar offices leads a long way in gaining customer confidence particularly in remote locations of the country. Adoption of technology infrastructure to reach out to customers enhances ease, a physical approach which can come in handy to reach the last mile," the regulator said in a master circular on operations.

To instil confidence in customers through visibility, the opening or closing of business units must be done judiciously, safeguarding the interests of policyholders, the regulator said.

Places of business should



As per IRDAI data, there were 11,256 life insurance offices as on March 31, 2023, which is an increase of 196 from the previous year. Around 59 per cent of life insurance offices are in tier-1 centres with population of one lakh and above.

About 0.76 per cent are in tier-6 centres with population less than 5,000.

EXISTING OFFICES

The public sector insurer had offices in 688 of the 750 districts (92 per cent) in the country, whereas private sector insurers had offices in 604 districts (81 per cent).

Public and private insurers together covered 92 per cent of districts.

General and health insurers were operating from 9,917 offices against 10,775 offices as on March 31, 2022.

Overall, there is a decrease of 858 non-life insurance offices as compared with the previous year.

be opened within a year from the date of approval, after which it would lapse.

LIAISON OFFICE

To open a representative or liaison office outside India, the board of the insurer should approve all the related operational matters.

"The insurer should have appropriate arrangements to ensure that the policyholders' liabilities that arise out of foreign operations are adequately ring-fenced in order to protect interests of the policyholders residing in India," it said.

Rupee likely to maintain the range

Akhil Nallamuthu
bl research bureau

The rupee is up by 11 paise so far this week against the dollar as it ended at 83.43 on Tuesday. Therefore, the local currency has managed to recoup most of its losses it made in the second half of last week.

WEEKLY RUPEE VIEW.

The decline in the dollar early this week supported the Indian unit. A notable positive development for rupee has been the current account deficit (CAD) number. The latest data shows that CAD, at \$23.3 billion, has narrowed to 0.7 per cent of GDP in FY24 compared with \$67 billion in the previous fiscal.

Another factor supporting the rupee is the capital inflows. According to National Securities Depository Ltd data, the net foreign portfolio investors flows over the past week is \$2.9 billion. The net in-



flows in June so far stands at \$3.5 billion. Thus, rupee remained flat despite the dollar index gaining 1.5 per cent over the past three weeks. As per the chart, the rupee manages to keep the range of 83-83.60 valid.

potentially to 84.20-84.30 range. The dollar index (DXY) can play a major role in deciding the path of rupee. DXY, currently trading at 105.50, has been on the rise over the last three weeks. Yet, it faces a resistance at 106.50. But a break-out of this can lead to a sharp rally, which can negatively impact the rupee. On the other hand, if DXY falls, it has a support at 104. But a breach of this can result in a deeper fall, probably to 102.70 or even to 101. In this scenario, rupee can be expected to appreciate to 82 or beyond.

CHART

The rupee, by closing at 83.43 on Tuesday, continues to trade within the 83-83.60 range. The broader price band has been 82.80-83.70. Therefore, it can establish a trend only when it moves out of this wider range. If the domestic currency surpasses the resistance at 82.80, it can appreciate to 82.50 and then to 82. On the other hand, a decline below 83.70 can open the door for a fall beyond 84,

OUTLOOK

There are fundamental factors that are in favour of the rupee now. The Fed keeping the rates higher for longer is dollar positive. Overall, the forces on both sides can largely be expected to balance out, which means, rupee does not have the conditions yet to get out of the range within which it has been trading for quite some time.

External debt up 6% to \$663.8 billion in FY24

Our Bureau
Mumbai

India's external debt increased by about 6 per cent year-on-year (or by \$39.7 billion) to \$663.8 billion as at March-end 2024 against \$624.1 billion as at March-end 2023.

However, as a ratio to GDP, it declined to 18.7 per cent at end-March 2024 from 19 per cent at end-March 2023.

The country's external debt comprises loans, currency and deposits, trade credit and advances and debt securities.

"Valuation effect due to the appreciation of the US dollar vis-à-vis the Indian rupee and other major currencies such as yen, the euro and SDR (special drawing rights) amounted to \$8.7 billion.

"Excluding the valuation effect, external debt would have increased by \$48.4 billion instead of \$39.7 bil-



US dollar-denominated debt remained the largest component of India's external debt, with a share of 53.8 per cent

lion at end-March 2024 over end-March 2023," per a RBI statement.

Debt service (that is principal repayments and interest payments) increased to 6.7 per cent of current receipts at end-March 2024 from 5.3 per cent at end-March 2023, reflecting higher debt service, it added.

At end-March 2024, long-term debt (with original maturity of above one year) increased by about 8 per cent y-o-y (or

by \$45.6 billion) to \$541.2 billion over end-March 2023 level.

COMPONENTS

Short-term debt on residual maturity basis (that is debt obligations that include long-term debt by original maturity falling due over the next twelve months and short-term debt by original maturity) constituted 42.9 per cent of total external debt at end-March 2024 (44.0 per cent at end-March 2023).

Short-term debt stood at 44.1 per cent of foreign exchange reserves (47.4 per cent at end-March 2023).

US dollar-denominated debt remained the largest component of India's external debt, with a share of 53.8 per cent at end-March 2024 (54.6 per cent as at March-end 2023).

This was followed by debt denominated in the Indian rupee (31.5 per cent vs 29.8 per cent as at March-end 2023), yen (5.8 per cent vs 5.7 per cent), SDR (5.4 per cent vs 6.1 per cent) and euro (2.8 per cent vs 3.2 per cent).

Loans remained the largest component of external debt, with a share of 33.4 per cent (32.5 per cent as at March-end 2023), followed by currency and deposits (23.3 per cent vs 22.6 per cent as at March-end 2023), trade credit and advances (17.9 per cent vs 19.9 per cent) and debt securities (17.3 per cent vs 16.7 per cent).

GDP growth to moderate to 7.1% in CY24: DBS Bank

KR Srivats
New Delhi

Singapore-headquartered DBS Group expects India's GDP growth to moderate, but stay resilient at 7.4 per cent in April-June 2024. For the entire calendar year 2024, DBS Group has now pegged the GDP growth estimate at 7.1 per cent. In January-March

2024, GDP growth had touched 7.8 per cent, led by non-farm output and investment growth. The modest slowdown in GDP growth in April-June 2024 is mostly led by deterioration in industrial production, credit, freight traffic and government capital expenditure, according to DBS Group's Nowcast. Meanwhile, farm tractor, commercial vehicle sales and external

trade in goods and services likely improved during the April-June quarter. "Based on a firm 1Q (Jan-Mar) and 2Q24 (April-June) reading in calendar year 2024, we expect full year growth at 7.1 per cent in CY24", Radhika Rao, Senior Economist, DBS Group Research said.

DBS Group's growth forecast of 7.4 per cent for April-June 2024 quarter is higher

than the Reserve Bank of India's (RBI) GDP growth projection of 7.3 per cent for this quarter.

Meanwhile, Joanne Goh, Senior Investment Strategist, DBS Bank, said that the incumbent NDA coalition is expected to follow through with policies that were kick-started in the previous term, including expanding the manufacturing footprint and capex push.

RBI appoints additional director on Bandhan Bank's board

Mithun Dasgupta
Kolkata

The Reserve Bank of India has appointed a director on the board of private sector lender Bandhan Bank, which will soon see a top management transition. The Kolkata-based lender's MD and CEO Chandra Shekhar Ghosh will retire on July 9, after spending nearly a decade at the helm.

In a stock exchange filing, Bandhan Bank said the Reserve Bank of India has appointed Arun Kumar Singh, a retired chief general manager at the central bank, as an Additional Director on its board for a period of one year from June 24, 2024 to June 23, 2025. Singh, aged 60 years, has working experience of almost 36 years in RBI. According to sources familiar with the development, the RBI has appointed the additional director on the bank's board to assist a "smooth" management transition as its MD and CEO's term is coming to an end shortly and the successor selection process is still on. On the succession plan, Ghosh, during an earnings call with analysts and investors, had said, "A search committee has been formed and it has appointed headhunters."

KERALA CRICKET ASSOCIATION
Invitation for Expression of Interest Franchise Team Rights
T20 Premier League
Expression of Interest (EOI) is invited from reputed companies/firms for acquiring team franchise rights in the T20 Premier League, organised by Kerala Cricket Association. The EOI documents along with application forms will be available from 26th June 2024, 5 pm onwards from the Office of Hon. Secretary, Kerala Cricket Association, Thiruvananthapuram / through email on submission of bid fee.

VIKAS WSP LIMITED
CIN: L24139HR1988PLC030300
Registered Office: Railway Road, Sivani, Haryana - 127046 India
Corporate Office: B-86/87, Udyog Vihar, RIICO, Industrial Area, Sri Ganganagar, Rajasthan
Website: www.vikaswsp.com
E-mail ID: cs@vikaswsp.com
1984@gmail.com
Tel: 91(154) 2494512/2494552;
Fax: 31(154) 2494361/2475376

Notice is hereby given that Pursuant to Regulation 29, 33 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") that a meeting of the Board Meeting, audit committee and Resolution Professional of the Company is scheduled to be held on Tuesday, July 02, 2024 at B-86/87, RIICO, Udyog Vihar, Industrial Area, Sri Ganganagar-335002 at 11.00 A.M. inter alia, to consider, approve, take on records the Audited Standalone Financial Results for the fourth Quarter(Q-4) and year to date ended 31st March, 2024

By order of the Resolution Professional For Vikas WSP Limited (A company under corporate Insolvency Resolution process)
Sd/-
Gurajin Kumar Karn
Company Secretary
Issued with approval of Mr. Darshan Singh Anand
Resolution Professional
IBBI Reg. No.: IBBI/IPA-002/IP-N00326/2017-18/10931
Date: 26.06.2024
Place: Sri Ganganagar

TATA POWER
(Corporate Contracts Department)
Sahar Receiving Station, Near Hotel Leela, Andheri (E), Mumbai 400 059, Maharashtra, India
(Board Line: 022-67173188) CIN: L28920MH1919PLC000567

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST
The Tata Power Company Limited hereby invites Expression of Interest from eligible parties for "Outline Agreement for Three Years for Tree Trimming Works for Transmission & Distribution Division, Trombay Plant and Trombay Colony at Mumbai. (Tender Ref. No.: CC25PMR012)". For details of pre-qualification requirements, purchasing of tender document, bid security, etc., please visit Tender section of our website (URL: <https://www.tatapower.com/tender/tenderlist.aspx>). Eligible parties willing to participate may submit their expression of interest along with the tender fee on or before 5th July 2024.

COCHIN INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED
CIAL/CIVIL/613-B
TENDER NOTICE 26/06/2024
Item rate E-tenders are invited from reputed agencies for the work mentioned below at Cochin International Airport, Nedumbassery.

Name of Work	Estimated Amount (Rs.)	EMD	Period of Completion
Construction of Convention Hall, Cottages, Sports Complex and External Development Works - SH: Civil and Interior Works.	27.43 Crores	Rs.27 Lakhs (Rs.20 lakhs through online payment and balance Rs.7 lakhs as Bank guarantee)	15 months

For more details visit our website : www.cial.aero
Sd/-
Managing Director

TATA POWER
The Tata Power Company Limited (Mundra Thermal Power Station - UMPP)
Tunda Vandi Road, Tunda Village, Mundra, Kutch, Gujarat.
Reg. Office: Bombay House, 24 Homi Modi Street, Mumbai - 400 011

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST
The Tata Power Company Limited hereby invites Expression of Interest (EOI) from eligible bidders for the following requirement for 4150 MW UMPP Mundra Thermal Power Station:

- Supply of Butterfly valve (Size-2000 NB) for sea water application (Ref.: MTPS25AD757)
- Supply of Cold end Basket of Gas Air Preheater (GAH) (Ref.: MTPS25AD758)
- Supply of Horizontal Centrifugal Full-out pump for sea water application (MOC-ASTM A995 Grade 5A AISI 2507) (Ref.: MTPS25AD759)
- Supply of Corrugated and plain Corten-A Steel sheet for Boiler Penthouse (Ref.: MTPS25-1500015887)
- Refractory Services for Bottom Ash Hopper in Ash handling plant (Ref.: MTPS25-2000018125)
- Supply of Grinding Rolls and Bull Ring segments for Coal Pulverisers, Model - XHP1103 (Ref.: 1000064575)

For prequalification requirements, tender fee, bid security etc., please visit Tender section of our website (URL: <https://www.tatapower.com/tender/tenderlist.aspx>) and refer detailed Tender Notice for subject tender. Eligible bidders willing to participate in this tender may submit their Expression of Interest along with the Tender Fee latest by 12/07/2024.

Invesco Mutual Fund

Invesco Asset Management (India) Pvt. Ltd.
(CIN: U67190MH2005PTC153471), 2101-A, 21st Floor, A Wing, Marathon Futurex, N. M. Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013
Telephone: +91 22 6731 0000 Fax: +91 22 2301 9422, Email: mfservices@invesco.com
www.invescomutualfund.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that Invesco Trustee Pvt. Ltd., (the Trustee to Invesco Mutual Fund) has approved the declaration of Income Distribution cum Capital Withdrawal ('IDCW') in the following scheme, the particulars of which are as under:

Name of the Scheme	Plan(s) / Option(s)	Amount of IDCW* (Rs. per unit)	NAV as on June 24, 2024 (Rs. per unit)	Record Date*
Invesco India Balanced Advantage Fund, an open ended dynamic asset allocation fund	IDCW Option	0.15	20.91	June 28, 2024
	Direct Plan - IDCW Option		24.63	

*Distribution of the above IDCW is subject to the availability of distributable surplus and may be lower to the extent of distributable surplus available on the record date. IDCW payable to the unit holder(s) will be lower to the extent of tax deducted at source, at applicable rates.

#or immediately following Business Day if that day is not a Business Day.

Face Value per unit is Rs. 10/-.

Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the IDCW Options of the scheme would fall to the extent of payout and statutory levy, if any.

Unit holders of the aforesaid scheme, whose names appear in the records of the Registrar, KFin Technologies Limited, as at the close of business hours on **Friday, June 28, 2024** or immediately following Business Day if that day is not a Business Day (including valid purchase/switch-in application received till 3.00 p.m. on the record date, subject to the entire amount of subscription/ purchase as per the application / switch-in request is available for utilization by the scheme before the cut-off time on the record date) will be entitled to receive the IDCW.

Unit holders holding units in dematerialized (electronic) form whose names appear in the statement of beneficial owners maintained by the Depositories under the aforesaid scheme as at the close of business hours on **Friday, June 28, 2024** will be entitled to receive the IDCW.

With regard to Unit holders under IDCW options of the aforesaid scheme, who have opted for IDCW Reinvestment facility, the IDCW due will be reinvested by allotting units for the IDCW amount (net of applicable taxes and stamp duty) (on the next Business Day after the Record Date) at a price based on the prevailing ex-IDCW NAV per unit on the record date.

For Invesco Asset Management (India) Pvt. Ltd. (Investment Manager for Invesco Mutual Fund)

Sd/-
Saurabh Navavati
Chief Executive Officer

Date: June 25, 2024

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

